

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014—श्रावण 17, शक 1936

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन
17, अरेरा हिल्स, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2014

फा. क्र. 84-2014-चार-उप चुनाव-11599.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के उप नियम 11(2) के अनुसरण में 92-विजयराघवगढ़, 94-बहेरीबंद एवं 166-आगर (अ.जा.) विधान सभा क्षेत्र के उप चुनाव हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 7-क का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचनार्थ किया जाता है:—

प्ररूप-7 क

[नियम 10 (1) देखिये]

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

92-विजयराघवगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये उप निर्वाचन

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	दल सहबद्धता (4)	आवंटित प्रतीक (5)
----------------	------------------------	------------------------	--------------------	----------------------

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी

1	विजेन्द्र पं. विजयप्रकाश मिश्र (राजा भैया)	विजय निवास, ईश्वरीपुरा, वार्ड कटनी (म. प्र.).	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
2	संजय पाठक	ग्राम बरमानी तहसील बरही जिला कटनी.	भारतीय जनता पार्टी	कमल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)				
3	मथुरा प्रसाद केवट	ग्राम लूली पो. आ. उबरा तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी (म. प्र.).	अपना दल	कप और प्लेट
(iii) अन्य अभ्यर्थी				
4	हाजी गुलाम भाई	मकान नं. 114 वार्ड क्रमांक 14, अमरैया पार बस स्टेण्ड कैमोर पोस्ट कैमोर तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी (म. प्र.).	निर्दलीय	टेलीफोन
5	फन्दी लाल कोल	ग्राम पड़खुरी तहसील विजयराघवगढ़	निर्दलीय	अलमारी
6	फूल सिंह मराबी	ग्राम पोस्ट बरन महगँवा तहसील बरही जिला कटनी (म. प्र.).	निर्दलीय	काँच का गिलास
7	मोतीलाल कोल	मकान संख्या 783 गैरतलाई तहसील विजयराघवगढ़.	निर्दलीय	अंगूर
8	विजेन्द्र मिश्रा राजा भैया	ग्राम दमोय पोस्ट भरेवा, तहसील मानपुर, जिला उमरिया.	निर्दलीय	एअरकंडीशनर
9	विनोद	ग्राम-पोस्ट, मोहास तहसील विजयराघवगढ़. जिला कटनी (म. प्र.).	निर्दलीय	बल्ला
10	हेतराम कनौजिया	ग्राम कांटी, तहसील विजयराघवगढ़.	निर्दलीय	आँटो-रिक्शा

हस्ता./-

स्थान : कटनी
दिनांक : 6-8-2014.

(शिवगोविन्द मरकाम)

रिटर्निंग आफिसर,
92-विजयराघवगढ़.

FORM 7A
[See Rule 10(1)]

Conduct of Elections Rules, 1961

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye Election to the Assembly Constituency 92-Vijayraghavgarh

Sl. No. (1)	Name of Candidate (2)	Address of Candidate (3)	Party affiliation (4)	Symbol allotted (5)
----------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------

(i) Candidates of Recognied National and State Political Parties

1	Vijendra Pt. Vijay Prakesh Mishra (Raja Bhaiya).	Vijaya Niwas, Ishwaripura Ward Katni (M. P.).	Indian National Congress	Hand
---	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------	------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

2	Sanjay Pathak	Gram Barmani Tehsil Barhi District Katni	Bharatiya Janata Party	Lotus
---	---------------	---------------------------------------------	------------------------	-------

**(ii) Candidates of Registered Political Parties
(Other than Recognised National and State Political Parties)**

3	Mathura Prasad Kewat	Village Looli P.O. Ubara, Tehsil Vijayraghavgarh District Katni (M. P.).	Apna Dal	Cup & Saucer
---	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------

(iii) Other Candidates

4	Haji Gulam Bhai	House No. 114, Ward No. 14 Amraiypar Bus Stand Kymore, Post Kymore Tehsil Vijayraghavgarh District Katni (M. P.).	Independent	Telephone
5	Fandi Lal Kol	Village Padkhuri Tehsil Vijayraghavgarh	Independent	Almirah
6	Phool Singh Maraby	Village Post Baran Mahaganwa Tehsil Barhi District Katni (M. P.).	Independent	Glass Tumbler
7	Moti Lal Kol	House No. 783 Gairtalai Tehsil Vijayraghavgarh	Independent	Grapes
8	Vijendra Mishra Raja Bhaiya.	Village Damoya Post Bharewa, Teshil Manpur District Umariya.	Independent	Air Conditioner
9	Vinod	Village Post Mohas Tehsil Vijayraghavgarh District Katni (M. P.).	Independent	Bat
10	Hetram Kanoujia	Village Kanti Tehsil Vijayraghavgarh.	Independent	Auto-Rickshaw

Place : Katni
Date : 6-8-2014

Sd./-
(SHIVGOVIND MARKAM)
Returning Officer,
92-Vijayraghavgarh.

प्ररूप-7 क
[नियम 10 (1) देखिये]
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

94-बहोरीबंद निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये उप निर्वाचन

क्रमांक संख्या (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	दल सहबद्धता* (4)	आवंटित प्रतीक (5)
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी				
1	प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू)	वार्ड क्र. 13 पहेरेवा, पोस्ट सिहोरा, जिला जबलपुर.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2	कुंवर सौरभ सिंह	ग्राम भटगंवा सुनहरा गुबराधरी तह. व जिला कटनी.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)				
3	डॉ. ए. के. खान	ग्राम-देवरी टोला, पोस्ट-पिपरौध तह.-कटनी, जिला-कटनी.	लोकतांत्रिक सामाजवादी पार्टी	मोमबत्तियां
4	गोविन्द यादव	323/4, लक्ष्मण अपार्टमेंट दयानन्द सरस्वती वार्ड, जिला जबलपुर.	जनता दल (यूनाइटेड)	तीर
5	सुदामा यादव	ग्राम-पडुवा, पोस्ट-पिपरौध, जिला-कटनी.	समाजवादी पार्टी	साइकिल
(iii) अन्य अभ्यर्थी				
6	कोदू सिंह गोंड	ग्राम सलैया खुर्द, पो.-मोहतरा, तहसील-बहोरीबंद, जिला-कटनी.	निर्दलीय	डबलरोटी
7	गोपाल	ग्राम-टिकरिया, तहसील-बहोरीबंद, जिला-कटनी.	निर्दलीय	टेलीविजन
8	मुन्नालाल दीवान	ग्राम-धूरी, तह.-बहोरीबंद, जिला-कटनी.	निर्दलीय	काँच का गिलास
9	रामभरोसे	ग्राम-नैगवां, तहसील-बहोरीबंद, जिला-कटनी.	निर्दलीय	अंगूर
10	शिवकुमार मेहरा	ग्राम-निमास, पो.-निमास, तहसील बहोरीबंद, जिला-कटनी.	निर्दलीय	अलमारी

हस्ता./-

(रानी पासी)

रिटर्निंग आफिसर,

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 94-बहोरीबंद

स्थान : कटनी

तारीख : 6-8-2014.

FORM 7A
[See Rule 10(1)]

Conduct of Elections Rules, 1961

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye Elections to the Legislative Assembly from 94-Bahoriband Constituency

Serial No. (1)	Name of Candidate (2)	Address of Candidate (3)	Party affiliation (4)	Symbol allotted (5)
-------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------

(i) Candidates of Recognised National and State Political Parties

1	Pranay Prabhat Pandey (Guddu)	Ward No. 13, Pahrewa, Post-Sihora, District-Jabalpur..	Bharatiya Janata Party	Lotus
2	Kunwar Saurabh Singh	Village-Bhatgawa Sunehra Gubradhari, Teh./District -Katni.	Indian National Congress	Hand

(ii) Candidates of Registered Political Parties (Other than Recognised National and State Political Parties)

3	Dr. A.K. Khan	Village -Deori Tola, P.O.-Pipraudh, Teh./District -Katni.	Loktantrik Samajwadi Party	Candles
4	Govind Yadav	323/4 Laxman Apartment Dayanand Saraswati Ward, District-Jabalpur.	Janata Dal (United)	Arrow
5	Sudama Yadav	Village-Padua, P.O.-Pipraudh, Teh./District -Katni.	Samajwadi Party	Bicycle

(iii) Other Candidates

6	Kodu Singh Gond	Village-Salaiya Khurd, Post-Mohtara, Teh.-Bahoriband District -Katni	Independent	Bread
7	Gopal	Village-Tikariya, Tehsil-Bahoriband, District-Katni.	Independent	Television
8	Munna Lal Diwan	Village-Dhuri, Post-Khirahni, Tehsil-Bahoriband, District-Katni.	Independent	Glass Tumbler

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Ram Bharosae	Village-Naigwan, Tehsil-Bahoriband, District-Katni.	Independent	Grapes
10	Shiv Kumar Mehra	Village/Post-Nimas, Tehsil-Bahoriband, District-Katni.	Independent	Almirah

Place : Katni
Date : 6-8-2014

Sd./-
(RANI PASI)
Returning Officer,
Assembly Constituency 94-Bahoriband.

प्ररूप-7 क
[नियम 10 (1) देखिये]
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
166-आगर (अजा) निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये उप निर्वाचन

क्रम संख्यांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	दल सहबद्धता (4)	आवंटित प्रतीक (5)
----------------------	------------------------	------------------------	--------------------	----------------------

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी

1	गोपाल परमार	नये जैन मन्दिर के पास, उज्जैन कोटा रोड वार्ड नं. 18, आगर-मालवा.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2	राज कुमार गौरै	पुरानी न.पा. कम्पाउण्ड, आगर.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)

3	कैलाश मालवीय	बलाई सेरी वार्ड नं. 1, ग्रा.-कानड, तहसील व जिला आगर.	समाजवादी पार्टी	साइकिल
---	--------------	---------------------------------------------------------	-----------------	--------

(iii) अन्य अभ्यर्थी

4	पारसचंद नरवाल	वार्ड क्र. 13, अयोध्याबस्ती, आगर-मालवा (म.प्र.).	निर्दलीय	काँच का गिलास
5	मुकेश सोनगरा	184, सुनवानी रोड क्षिप्रा, जिला-देवास.	निर्दलीय	अंगूर

हस्ता./-

स्थान : आगर
तारीख : 6-8-2014.

(जी. एस. डाबर)
रिटर्निंग आफिसर,
विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 166-आगर (अ.जा.)

FORM 7A
[See Rule 10(1)]

Conduct of Elections Rules, 1961

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye Elections to the Legislative Assembly Constituency 166-Agar (SC)

Serial No. (1)	Name of Candidate (2)	Address of Candidate (3)	Party affiliation (4)	Symbol allotted (5)
(i) Candidates of Recognised National and State Political Parties				
1	Gopal Parmar	Naye Jain Mandir Ke Pas Ujjain Kota Road Ward No. 18, Agar-Malwa.	Bharatiya Janata Party	Lotus
2	Raj Kumar Goure	Purani N. PA. Compound. Agar.	Indian National Congress	Hand
(ii) Candidates of Registered Political Parties (Other than Recognised National and State Political Parties)				
3	Kailash Malviya	Balai Seri Ward No. 1, Gram-Kanad, Tehsil & District -Agar-Malwa.	Samajwadi Party	Bicycle
(iii) Other Candidates				
4	Paraschand Narwal	Ward No. 13, Ayodhya Basti, Agar-Malwa.	Independent	Glass Tumbler
5	Mukesh Songara	184, Sunwani Road Kshipra, District-Dewas.	Independent	Grapes

Place : Agar
Date : 6-8-2014

Sd./-
(G. S. DABAR)
Returning Officer,
Assembly Constituency 166-Agar (S.C.)

जयदीप गोविन्द, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.